



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
एक नवरत्न पीएसयू

# कार्य-निष्पादन विशेषताएं

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही/वित्तीय वर्ष



B बेहतर भविष्य के लिए निधियन

# विषय – सूची

## क. पीएफसी – एक नजर

## ख. एकल कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं
2. अर्जन संबंधी अपडेट
3. परिसंपत्ति गुणवत्ता
4. प्रचालन कार्य-निष्पादन
5. शेयरधारकों का दृष्टिकोण

## ग. समेकित कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं



## क. पीएफसी - एक नजर

# विद्युत क्षेत्र में अग्रणी वित्तपोषक



भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ी सरकारी  
वित्तपोषण प्रदाता

2 “नवरत्न” कंपनियों के साथ ग्रुप – पीएफसी एवं आरईसी



भारत सरकार  
द्वारा अधिकांश  
स्वामित्व



विद्युत क्षेत्र में  
सरकार के लिए  
महत्वपूर्ण वित्तीय  
पार्टेनर



‘एएए’ की सबसे  
बड़ी दीर्घकालिक  
घरेलू रेटिंग




पीएफसी ग्रुप  
विद्युत क्षेत्र की  
सबसे बड़ी वित्तीय  
कंपनी है



#फॉर्च्यून 500  
इंडिया में 33  
स्थान (2020)

# पीएफसी समूह संगठक



1. ईईएसएल – एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विस लिमिटेड

2. ईईएसएल में 47.15% स्टोक पीएफसी (24.97%) और आरईसी (22.18%) का समेकित स्टोक है



## ख. एकल कार्य-निष्पादन

# 1. विशेषताएं

---

# मुख्य पृष्ठभूमि

## नव गतिविधि

### विद्युत क्षेत्र (source: CEA)

- ✓ - अप्रैल '20 से अप्रैल '21 में विद्युत उत्पादन में 42.5% की वृद्धि हुई
- जनवरी-मार्च '21 में सौर क्षमता में वृद्धि 2019 के बाद सबसे तेज है।

### आर्थिक विकास संकेतक (source: media reports)

- ✓ - कोविड-19 के टीके वित्त वर्ष 21 में गति पकड़ेंगे - जिससे औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि होगी
- आरबीआई ने भारत के जीडीपी अनुमान में 1% से 9.5% की कटौती की

### बाजार संकेतक (source: RBI)

- ✓ - मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर सुनिश्चित करते हुए आरबीआई समायोजनात्मक रुख बनाए रखता है
- अप्रैल और मई 2021 में सिस्टम तरलता बड़े अधिशेष में रही

## विद्युत क्षेत्र

30.04.2021 तक

पीएलएफ़ <sup>1</sup>

Peak Demand Met<sup>1</sup>

67%

183  
जीडबल्यू

## 14.06.2021 तक ऋण बाज़ार संकेतक (source: Reuters)

|        | सरकारी क्षेत्र<br>(अर्ध-वार्षिकी) | एए कॉर्पोरेट | यूएस ट्रेजरी |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 5वर्ष  | 5.53%                             | 6.23%        | 0.75%        |
| 10वर्ष | 6.01%                             | 7.11%        | 1.46%        |

# वित्तीय वर्ष 21 में दृष्ट कार्य-निष्पादन



## वित्तीय वर्ष 20 पीएटी में 49% की वृद्धि

वित्तीय वर्ष 21 में 8,444 करोड़ रुपए बनाम वित्तीय वर्ष 20 में 5,655 करोड़ रुपए

## वित्तीय वर्ष 20 में सीआरएआर से 187 बीपीएस की वृद्धि

वित्तीय वर्ष 21 में सीआरएआर पर 18.83% टियर I 15.46% और टियर II 3.37%

## विगत 4 वर्षों में एनपीए स्तरों में कमी

वित्तीय वर्ष 21 में 2.09% बनाम वित्तीय वर्ष 20 में 3.80%

## वित्तीय वर्ष 21 में 25% स्ट्रेस्ड बुक का समाधान


4 परियोजनाओं पर 6,844 करोड़ रुपए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध होने के कारण पी एंड एल पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा

## पीएफसी क्रेडिट रेटिंग की पुनःपुष्टि

क्रिसिल/इकरा/केयर – एएए  
मूडीज़ – बीएए3  
फिच – बीबीबी(-)


# वास्तविक वित्तीय स्थिति

निवल वृद्धि ↑ 16%




■ निवल वृद्धि (करोड़ रु.)

एनआरईआई ↑ 28%



■ निवल ब्याज आय (करोड़ रु.)


स्पीड ↑ 27 बीपीएस



■ स्पीड ( % में)

प्रमुख अर्जन संबंधी संकेतकों में निरंतर वृद्धि

# भावी रणनीति



## 2. અર્જન સંબંધી અપડેટ

---

# राजस्व एवं वृद्धि

(रुपए करोड़ में)

| विवरण         | ति 4 वित्तीय वर्ष 21 | ति 4 वित्तीय वर्ष 20 | वित्तीय वर्ष 21 | वित्तीय वर्ष 20 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| ब्याजगत आय    | 8,876                | 8,285                | 36,146          | 31,950          |
| ब्याजगत व्यय  | 5,804                | 5,550                | 23,194          | 21,853          |
| निवल ब्याज आय | 3,072                | 2,735                | 12,951          | 10,097          |
| कर पश्चात लाभ | 2,327                | 1,435                | 8,444           | 5,655           |
| कुल संचयी आय  | 2,373                | 1,170                | 8,534           | 5,321           |

(समाप्त वर्ष – मार्च)

विश्लेषण के उद्देश्य के लिए कुछ आंकड़ों को फिर से पुनःएकत्र/ पुनर्गठित किया गया है। इसलिए, वे रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के साथ सामंजस्य नहीं कर सकते हैं।

# मुख्य अनुपात

(अनुपात % में)

| विवरण                                      | ति 4 वित्तीय वर्ष 21 | ति 4 वित्तीय वर्ष 20 | वित्तीय वर्ष 21   | वित्तीय वर्ष 20   |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| अर्जित परिसंपत्तियों पर लाभ                | 10.28                | 10.67                | 10.58             | 10.63             |
| निधियों की लागत                            | 7.25                 | 7.71                 | 7.48              | 7.79              |
| अर्जित परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड      | 3.03                 | 2.96                 | 3.10              | 2.83              |
| अर्जित परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन | 3.30                 | 3.28                 | 3.54              | 3.17              |
| सीआरएआर                                    | 18.83                | 16.96                | 18.83             | 16.96             |
| नेट वर्थ<br>(शेयर पूंजी + सभी रिजर्व)      | 52,393 करोड़ रुपए    | 45,164 करोड़ रुपए    | 52,393 करोड़ रुपए | 45,164 करोड़ रुपए |

(समाप्त वर्ष – मार्च)

अनुपात वार्षिकीकृत किए गए हैं और दैनिक औसत पर आधारित हैं और राउंड ऑफ किए गए हैं।


### 3. परिसंपत्ति गुणवत्ता

---


# परिसंपत्ति गुणवत्ता स्नैपशॉट

31.03.2021 तक ऋण बही 3,70,771 करोड़ रुपए

निवल एनपीए में गिरावट का ट्रेंड जारी है



ऋण परिसंपत्ति घटक



94% ऋण परिसंपत्ति नियमित रूप से सेवा में हैं और कोई तनाव की परिकल्पना नहीं की गई है

# प्रावधान स्नैपशॉट – 31.03.2021

(रुपए करोड़ में)



31.03.2021 के अनुसार  
प्रावधान स्थिति

चरण-III परिसंपत्तियां (एनपीए)  
के विरुद्ध 63% प्रावधान

|                               | चरण I एवं II    | चरण III       | चरण III (एनपीए) में<br>ऋण परिसंपत्तियों में<br>वृद्धि का % | कुल             |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>बकाया ऋण परिसंपत्तियां</b> |                 |               |                                                            |                 |
| - सरकारी क्षेत्र              | 3,11,387        | -             | -                                                          | <b>3,11,387</b> |
| - निजी क्षेत्र                | 38,234          | 21,150        | -                                                          | <b>59,384</b>   |
| <b>कुल बकाया राशि</b>         | <b>3,49,621</b> | <b>21,150</b> | <b>5.70%</b>                                               | <b>3,70,771</b> |
| <b>कुल प्रावधान राशि</b>      | <b>3,181</b>    | <b>13,416</b> | <b>-</b>                                                   | <b>16,598</b>   |
| <b>निवल परिसंपत्तियां</b>     | <b>3,46,440</b> | <b>7,734</b>  | <b>2.09%</b>                                               | <b>3,54,173</b> |

Note - Provision has been made in respect of all loans assets as per Expected Credit Loss (ECL) methodology under Ind As.

# समाधान स्थिति – चरण III परिसंपत्तियां (1/2)

दिनांक 31.03.2021 तक 25% स्ट्रेस्ड बुक का समाधान

एनसीएलटी समाधान



जल पावर– 386 करोड़ रुपए  
(तिमाही 4' 21 के दौरान समाधान)

बाहरी एनसीएलटी समाधान



आरकेएम पावरजेन – 5,105 करोड़ रुपए  
सुजलोन एनर्जी - 915 करोड़ रुपए  
एस्सार ट्रांसमिशन - 438 करोड़ रुपए

वित्तीय वर्ष 21 के  
दौरान समाधान की  
गई 4 परियोजनाओं  
पर 6,844 करोड़  
रुपए

कोई अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध था

# समाधान स्थिति – चरण III परिसंपत्तियां (2/2)

21,150 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियां चरण-III की समाधान स्थिति



## एनसीएलटी के अंतर्गत

एनसीएलटी में 15,820 करोड़ रुपए

16 परियोजनाएं

68% प्रावधान

## एनसीएलटी के बाहर

बाहरी एनसीएलटी 5,330 करोड़ रुपए का समाधान किया जा रहा है।

09 परियोजनाएं

51% प्रावधान

## 4. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन


---

# ऋण परिसंपत्ति – संघटक

टी एंड डी और नवीकरणीय व्यवसाय पर निरंतर फोकस करना

(रुपए करोड़ में)

|                                                           | 31.03.2021 तक | 31.03.2020 तक |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| सकल ऋण परिसंपत्तियां <sup>1</sup>                         | 3,70,771      | 3,44,905      |
| योजना-वार                                                 |               |               |
| उत्पादन                                                   | 2,27,052      | 2,37,178      |
| ▪ परंपरागत उत्पादन                                        | 1,89,578      | 2,00,173      |
| ▪ नवीकरणीय ऊर्जा                                          | 37,474        | 37,005        |
| • नवीकरणीय ऊर्जा – बड़ी जल विद्युत परियोजना (>25 मेगावाट) | 16,734        | 17,594        |
| • नवीकरणीय ऊर्जा अन्य बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं          | 20,741        | 19,411        |
| ट्रांसमिशन                                                | 29,345        | 29,159        |
| संवितरण                                                   | 1,12,299      | 75,892        |
| अन्य                                                      | 2,076         | 2,676         |
| क्षेत्र-वार                                               |               |               |
| सरकारी क्षेत्र                                            | 3,11,387      | 2,87,514      |
| निजी क्षेत्र                                              | 59,384        | 57,391        |



1. These Gross Loans Assets are after considering extra-ordinary prepayments of Rs.20,097 cr. Loan Asset Growth rate is 13% after excluding this extra-ordinary event.

# संवितरण घटक

(रुपए करोड़ में)

|                | ति 4 वित्तीय वर्ष 21 |      | ति 4 वित्तीय 20 |      | वित्तीय वर्ष 21 |      | वित्तीय वर्ष 20 |      |
|----------------|----------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|                | राशि                 | %    | राशि            | %    | राशि            | %    | राशि            | %    |
| संवितरण        | 28,357               | 100% | 20,752          | 100% | 88,301          | 100% | 67,997          | 100% |
| योजना-वार      |                      |      |                 |      |                 |      |                 |      |
| उत्पादन        | 8,193                | 29%  | 8,880           | 43%  | 30,722          | 35%  | 36,012          | 53%  |
| पारेषण         | 1,351                | 5%   | 2,911           | 14%  | 5,495           | 6%   | 7,096           | 10%  |
| वितरण          | 18,784               | 66%  | 8,710           | 42%  | 51,903          | 59%  | 24,331          | 36%  |
| अन्य           | 29                   | 0.1% | 251             | 1%   | 182             | 0.2% | 558             | 1%   |
| क्षेत्र-वार    |                      |      |                 |      |                 |      |                 |      |
| सरकारी क्षेत्र | 25,591               | 90%  | 18,261          | 88%  | 79,051          | 90%  | 59,180          | 87%  |
| निजी क्षेत्र   | 2,766                | 10%  | 2,491           | 12%  | 9,251           | 10%  | 8,817           | 13%  |

31.03.2021 तक आत्मनिर्भर डिस्कॉम योजना की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत - 68,914 करोड़ रुपए एवं संवितरण - 36,439 करोड़ रुपए

# मुख्य तत्व – ऋण नीति



Continued focus on diversifying funding Mix – launched public issue of taxable bonds in FY '21



Enhanced Asset Liability Management – Surplus liquidity for upto 1 year time buckets



Well Managed Liquidity – Implemented RBI's LCR Framework



# 31.03.2021 तक देयताएं मिश्रण



86% exchange risk  
hedged for FCL with  
5 years residual  
maturity




1. Like CC/OD/line of credit/LAFD.

## 5. शेयरधारक दृष्टिकोण

---

# 31.03.2021 तक शेयरधारक दृष्टिकोण



इक्विटी अनुपात संभावित वृद्धि को इंगित करता है

ईपीएस  
(वार्षिकीकृत)

Rs.31.98

बही मूल्य प्रति शेयर

Rs.198.45

अर्जन अनुपात पर  
मूल्य

3.57

बही मूल्य अनुपात पर  
मूल्य

0.58

Above ratios are for FY'21 & are based on the last available closing share price from BSE as on the end of reporting period



## ग. समेकित कार्य-निष्पादन

# 1. विशेषताएं

---

# समेकित स्नैपशॉट



कुल आय - 71,701 करोड़ रुपए



ऋण परिसंपत्ति - 7,45,189 करोड़ रुपए



सकल एनपीए- 5.29%



विव'21 पीएटी- 15,716 करोड़ रुपए



नेट वर्थ - 81,790 करोड़ रुपए



निवल एनपीए - 1.91%



# मुख्य समेकित वित्तीय

(करोड़ रुपए )

| विवरण         | ति4 विव 21 | ति4 विव 20 | विव 21 | विव 20 |
|---------------|------------|------------|--------|--------|
| ब्याजगत आय    | 17,728     | 16,044     | 70,845 | 61,628 |
| ब्याजगत व्यय  | 11,244     | 10,491     | 44,684 | 40,845 |
| निवल ब्याज आय | 6,484      | 5,553      | 26,162 | 20,783 |
| कर पश्चात लाभ | 3,906      | 694        | 15,716 | 9,477  |
| कुल समेकित आय | 3,955      | (100)      | 16,264 | 8,589  |

(Y/E- March)

Some figures may have been regrouped / reclassified for analysis purpose. Therefore, they may not reconcile with the reported figures.

धन्यवाद !

कोई प्रश्न ?

पीएफसी के वित्तीय कार्य-निष्पादन प्रश्नों पर आप पीएफसी की निवेशक संबंध टीम से [investorrelations@pfcindia.com](mailto:investorrelations@pfcindia.com) पर संपर्क कर सकते हैं

# संपर्क जानकारी निवेशकों के लिए

54 ईसी कैपिटल गैन बॉण्ड में निवेशकों के लिए - [54ECinvestorcell@pfcindia.com](mailto:54ECinvestorcell@pfcindia.com)

सभी बॉण्ड जानकारी के लिए - [bondsinvestorcell@pfcindia.com](mailto:bondsinvestorcell@pfcindia.com)

दूरभाष - 011-23456000

# Disclaimer

- ▷ The presentation is prepared based on consolidated/stand-alone audited financial statements of PFC for financial year ended 31.03.2021.
- ▷ There is a possibility of Ind AS financial results and the additional disclosures to be updated, modified or amended because of adjustments which may be required to be made on account of introduction of new standards or its interpretation, receipt of guidelines or circulars from regulatory bodies and/or Reserve Bank of India
- ▷ This presentation may contain statements which reflect Management's current views and estimates and could be construed as forward looking statements. The future involves uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from the current views being expressed. Potential uncertainties and risks include factors such as general economic conditions, currency fluctuations, competitive product and pricing pressures, industrial relations and regulatory developments.
- ▷ We do not update forward-looking statements retrospectively. Such statements are valid on the date of publication and can be superseded.
- ▷ Figures are regrouped / reclassified to make them comparable.
- ▷ 'Analytical data' are best estimates to facilitate understanding of business and NOT meant to reconcile reported figures.
- ▷ Answers will be given only to non-price sensitive questions.
- ▷ This presentation is for information purpose only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities of PFC. Any action taken by you on the basis of the information contained in the presentation is your responsibility alone and PFC or its directors or employees will not be liable in any manner for the consequence of such actions taken by you.